

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd Office: 324A, 111rd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110 085

Email Id: gulmoharlimited@gmail.com, Tel.: 011-65260026, Website: www.gulmoharinvestments.com

CIN: L65993DL1982PLC013956

May 16, 2018

To,

Metropolitan Stock Exchange of India Limited (MSEI) 4 th Floor, Vibgyor Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400 098 Symbol: GIHL	The Calcutta Stock Exchange Limited 7, Lyons Range, Dalhousie, Murgighata, B.B.M Depot , Kolkata, West Bengal-700001 CSE Script Code: 17433
---	---

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of notice of 01/2018-19 board meeting scheduled to be held on Monday, 28th day of May, 2018 at 04:00 P.M.


ISIN: INE204V01016

With reference to the Regulation 47 and other applicable regulations, if any, of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "FINANCIAL EXPRESS" and Hindi newspaper i.e. "JANSATTA" on May 16, 2018.

Kindly find enclosed the copy of the same. This is for your information and records.

Thanking You,
Yours truly

For Gulmohar Investments and Holdings Limited


Pawan Kumar Mittal
Director
DIN: 00749265



नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.

पंजी. कार्यालय: गॉच-इमोरी, तहसील बेला, जिला- बिलासपुर, छत्तीसगढ़
 सीआइएन: L02710CT1989PLC010052
 ई-मेल: rai_nisil2007@yahoo.com
 फोन: 077-52285217, फैक्स: 077-52285213
 वेबसाइट: www.novaironsteel.com

सूचना

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर परस्पर विचार के लिए निदेशकों के बोर्ड की बैठक 29.05.2018 को होगी। सूचना कंपनी की वेबसाइट और शेयर बाजार की वेबसाइट: www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
 कृते नोवा आयरन एण्ड स्टील लि.
 ह./-

स्थान: नई दिल्ली (धीरज कुमार) कंपनी सचिव
 दिनांक: 15.05.2018

BCL ENTERPRISES LIMITED
 CIN: L65100DL1985PLC021467

510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110 001
 Email: bclenterprisesltd@gmail.com
 Website: www.bclenterprisesltd.in
 Contact: 011-23320370

ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 30th day of May, 2018, at 03:00 P.M. at 510, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Delhi-110001 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the Quarter & Financial Year ended on 31st March, 2018.

For BCL Enterprises Limited
 Sol-
 Mahendra Kumar Sharda
 (Managing Director)
 Place: New Delhi
 Date: 15/05/2018
 DIN: 00053042

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd Office: 606, 6th Floor, Vikrant Tower, 4, Rajendra Place, New Delhi - 110008
 CIN: L51909DL1985PLC020372
 E-mail id: limitedatlantic@gmail.com
 Website: www.atlantic-commercial.com
 Ph: 011-41539140, Fax: 011-25765214

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, May 28, 2018, inter-alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended March 31, 2018.

The information contained in this notice may be accessed on the Company's website at www.atlantic-commercial.com and also on the website of the stock exchange i.e. www.mseil.in

For Atlantic Commercial Company Limited
 Sol-
 Narendra Kishore Gaur
 Chairman
 Place: New Delhi
 Date: 14.05.2018
 DIN - 80168265

ग्रोमी इण्डिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 122, प्रथम मंजिल, विनोबापुरी, लाजपत नगर II, नई दिल्ली - 110024

सूचना

सेबी के विनियमन 29(1)(ए) (सूची दायित्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 एवं सूची समझौता के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुसरण में एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त वार्षिक एवं तिमाही के अंकेषित वित्तीय परिणामों पर अन्य तथ्यों के साथ विचार एवं स्वीकृत एवं कोई अन्य मामले जिस पर मंडल विचार करने योग्य समझता हो, हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, दिनांक 30 मई, 2018 को दोपहर 01:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 122, विनोबापुरी, लाजपत नगर II, नई

टाइटन सिक्युरिटीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: ए-2/3, तीसरा तल, लूसा टावर आजादपुर कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110033
 वेबसाइट: www.titansecuritiesltd.com
 CIN: L67190DL1993PLC052050
 फोन: 011-27674181, फैक्स: +91-11-47619811
 ई-मेल: titan.securities@yahoo.com

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक मंगलवार, 29 मई, 2018 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-2/3, तीसरी तल, लूसा टावर, आजादपुर कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, दिल्ली- 110033 में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेषित परिणामों पर विचार किए जाएंगे।
 पुनः कंपनी का ट्रेडिंग विन्डो 22.05.2018 से 31.05.2018 तक विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए बंद रहेगी।

कृते टाइटन सिक्युरिटीज लिमिटेड
 हिमांशी नेगी
 कंपनी सचिव
 स्थान: नई दिल्ली
 दिनांक: 15.05.2018

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd. off: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
 CIN: L65993DL1982PLC013956,
 Email id: gulmoharlimited@gmail.com,
 Tel.: 011-65260026
 website: www.gulmoharinvestments.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 28th day of May, 2018 at 04:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector- 14, Rohini, New Delhi- 110085, inter-alia, to Consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2018.

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading window shall remain closed from Monday, May 21, 2018 to Wednesday, May 30, 2018 (both days Inclusive) for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation and it shall Re-open for trading on Thursday, May 31, 2018.

For Further details visit the website of the Company (www.gulmoharinvestments.com) and website of the stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com)

For and on behalf of the Board of Directors
 Gulmohar Investments and Holdings Limited
 Sol-
 Pawan Kumar Mittal
 Director
 Place: New Delhi
 Date: 15.05.2018
 DIN: 00749265

NEW ERA LEASING AND FINANCE LIMITED

CIN: L67120DL1984PLC018800
 Regd. Office: 981, Aggarwal Millenium, Tower-II, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034
 Tel No.: 011-69999350
 Email ID: neweraleasingfinance@gmail.com;
 Website: www.neweraleasingfinance.com

ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 22nd day of May, 2018, at 04:00 P.M. at 981, Aggarwal Millenium Tower-II, Netaji Subhash Place, District Centre, Wazirpur, Opp. TV Tower, Pitampura, New Delhi - 110034 inter alia, to consider, approve and take on record the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended 31st March, 2018.

For New Era Leasing and Finance Limited
 Sol-
 Ras Bihari Sharma
 (Director)
 Place: New Delhi
 Date: 15th May, 2018
 DIN: 06804500

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड

CIN- L70100DL2010PLC200749
 पंजी. कार्यालय: 31, जंगपुरा रोड, भोगल, नई दिल्ली - 110014
 कॉर्पोरेट कार्यालय : 21 रिंग रोड, तीसरी मंजिल, फ्रंट पार्टियन, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली - 110025
 Tel.: 011-2647 7771, 2647 7772,
 Website: www.bdrbuildcon.com
 E-mail: info@bdrbuildcon.com

सूचना

सेबी (सूचीयन दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 47 के साथ पठित विनियमन 29 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शुक्रवार, 25 मई 2018 21 रिंग रोड, तीसरी मंजिल, फ्रंट पार्टियन, लाजपत नगर-IV, नई दिल्ली - 110025 में 4.00 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे।
 उक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bdrbuildcon.com पर भी उपलब्ध है तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट https://www.nseindia.com/merge.html पर भी उपलब्ध होगी।

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड के लिए
 हस्ता./-
 राजेश गुप्ता
 प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
 तिथि : 15 मई, 2018

R R FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED

CIN: L74899DL1986PLC023530
 Regd Off: 412-422, 4th Floor, Indraprakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi-110001
 Phone:- 011-23354802, Email id:- cs@rrfcl.com, Website:- www.rrfcl.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Reg. 29 of SEBI Listing Regulations 2015, (LODR), we are pleased to inform you that a meeting of the Board of Directors will be held on Tuesday, the 29th May, 2018 at 2:00 P.M. at the registered office of the Company for considering the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2018.

For R R Financial Consultants Limited
 Sol-
 Rajat Prasad
 Managing Director
 Place: New Delhi
 Dated: 16th May, 2018

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
 फोन: +91 22 2552 2060/ 2487, फैक्स: +91 22 2552 2320,
 ई-मेल आईडी: dgm_pur@rcfttd.com, CIN-L24110MH1978GOI020185

निविदा आमंत्रण सूचना

अधोलिखित के लिये दो बोली प्रणाली में ऑन लाइन बोलियों आमंत्रित है:
 निविदा का विवरण

निविदा आमंत्रण सूचना सं.	निविदा जमा करने की न्यत तिथि	निविदा खुलने की न्यत तिथि
e.220180405- नये 3.3 के.वी. (यूई) इन्डोर वीसीबी स्विचगियर पैनल के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति, संस्थापन एवं कमीशनिंग, वर्तमान 3.3 के.वी एनजीएफएम में एमओसीबी स्विचगियर पैनल के निपटारा एवं स्पेयर की आपूर्ति के लिए।	06.06.2018 17.00 बजे आईएसटी	07.06.2018 15.00 बजे आईएसटी

MADHYA BHARAT PAPERS LIMITED

Regd. Office: Village Birgahni, Rly & Post Champa-495 671, Dist. Janjgir-Champa (Chhattisgarh), CIN: L21012CT1980PLC001682, www.mbpl.in Tel: 9203906288, E-mail: mbplcal@vsnl.net

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Monday, the 28th May, 2018**, inter-alia, to consider and approve the audited financial results of the Company for the year ended 31st March, 2018. This information is also available on the Company's website at www.mbpl.in

For Madhya Bharat Papers Ltd. V.K. Khanna
Dated: 15.05.2018 Company Secretary

I, Mr K GUNASEKARAN (PAN ACQP3763L) holding 10 share of Bosch Limited (formerly: Motor Industries Company Limited,) Hosur Road, Adugodi, Bangalore - 560 030 in folio G01737 bearing Share Certificate Number 856, distinctive Number from 31497781 to 31497790 for 10 shares of Rs. 10/- each.

I hereby give notice that the said Share Certificate(s) is/are lost and I have applied to the company for issue of duplicate Share Certificate.

The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the said Share Certificates. The company may issue duplicate Share Certificates if no objection is received by the company, within 30 days of the publication of this advertisement, after which no claim will be entertained by the company in that behalf.

(Name of the shareholder/s)
K GUNASEKARAN
Place: Chennai Date: 15.05.2018

TAAL ENTERPRISES LIMITED

CIN : L62200TN2014PLC096373
Regd Off : 2nd Floor, MPPDA Towers, 184, Royapettah High Road, Chennai -600014
Phone: +91-44 4350 8393
Email: secretarial@taalent.co.in
Website: www.taalent.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, May 22, 2018, inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2018. The information contained in this notice is also available on the Company's website www.taalent.co.in and on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com.

For TAAL Enterprises Limited
Pune Niranjan Kulkarni
May 14, 2018 Company Secretary

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY
Materials Management Division
Powai, Mumbai 400 076

CORRIGENDUM

Please refer to our Advt. No. C-61/17-18 published on 24.03.2018 in Indian Express Group (All Editions). Please note that due date is extended for Purchase Requisition No. 1000001090- "X-Ray Diffraction System". Details and Corrigendum-II of above mention purchase requisition is uploaded on website.

Details at : www.iitb.ac.in OR www.iitb.ac.in/en/tenders For other inquires, contact Joint Registrar (MM), Ph. -25768800, email : drmm@iitb.ac.in
Date: 16th May 2018.

JOINT REGISTRAR (MM)

Tyche Industries Limited
Regd. Office: C-21/A, Road No. 9, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad 500 096
CIN:L72200AP1998PLC029809

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to

TANEJA AEROSPACE AND AVIATION LTD.

CIN: L62200TZ1988PLC014460
Regd. Off.: Belagondapalli Village, Thally Road, Denkanikottai Taluk, Krishnagiri Dist. Belagondapalli-635114 (TN)
Phone/ Fax: 04347-233508/ 233414
Email: secretarial@taal.co.in,
website: www.taal.co.in

NOTICE

Pursuant to Regulations 29 & 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, May 23, 2018, inter alia, to consider Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2018.

Further details will be available on Company's website www.taal.co.in & Stock Exchange website www.bseindia.com

For Taneja Aerospace and Aviation Ltd.
Pune Sallit Taneja
15.05.2018 Whole Time Director

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd. off: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
CIN: L65993DL1982PLC013956,
Email id: gulmoharlimited@gmail.com,
Tel.: 011-65260026
website: www.gulmoharinvestments.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 & 29 read with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 28th day of May, 2018 at 04:00 P.M. at the registered office of the Company situated at 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi- 110085, inter-alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2018.

Further, Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the Trading window shall remain closed from Monday, May 21, 2018 to Wednesday, May 30, 2018 (both days inclusive) for the Promoters, Directors, Designated Employees of the Company and all persons covered under the Regulation and it shall Re-open for trading on Thursday, May 31, 2018.

For Further details visit the website of the Company (www.gulmoharinvestments.com) and website of the stock Exchange(s) where the securities of the company are listed i.e. Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msei.in) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cse-india.com)

For and on behalf of the Board of Directors
Gulmohar Investments and Holdings Limited
Sd/-
Pawan Kumar Mittal
Director

Place: New Delhi
Date: 15.05.2018
DIN: 00749265

जयपुर विकास प्रा...

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्र/अभि.अभि./हाउसिंग-1/18/डी-300
पूर्ण कालीन बिड सूचना सं. अधि. अभि.-64

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य मंत्री जन आवास योजना-201 कॉलोनी सूरी नगर के प्लॉट संख्या A2 एवं A6 पर इन्क्यूब्यू.एच. क्र. रु. 962.00 लाख) हेतु दिनांक 12.07.2018 दोपहर 3.00 बजे तक ऑनलाइन निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। अपोहरसाकारकर्ता के कार्यालय के <http://sppn.rajasthan.gov.in> व www.eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
बोलीदाता को बोली में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि - UBN No. JDA 14, जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in प्रक्रिया शुरू केवल ऑनलाइन ही देख होगी। बोली प्रतिक्रिया ऑनलाइन दे सकती है। 2. ऑनलाइन निविदा में भाग लेने हेतु सावधान्य सरकार पंजीकृत हो।
राज.संचाद/डी/सी/18/896

JAIPUR DEVELOPE...

MB-GF-26, Room No. 26, Ground Floor, Main Building
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur

NOTICE INVITING

NIB No.: JDA/Ex. Eng. Elect
Online Bids are invited up-to 5:00 PM of 25.05.2018 for various smart solutions for developing JDA's 30 Kms Corridor with 5 years FMS Services* with estimated cost of Bid and making online payment on JDA portal is up-to 5:00 in the Bidding Document at our office or the State www.sppn.rajasthan.gov.in.
JDA Job No. -368 dated 20.01.2016 for FY 2015-16 SPP. To participate in the bid, bidder has to be 1. Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in For participating in the Bid, the Bidder has to apply to Fee, R/S, Processing Fee and Bid Security Deposit, and 2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan for online e-Bid submission.
Raj.Samwad/C/18/945

INDIA ENTERPRISES
Complex, Distt. Dantewada- 494 553 (CG)
07857-231253, +91-9406006585
materials@gmail.com bmmlal@nmdc.co.in
01001674 // GST Regn # 22AAACN7325A1Z5

TENDER NOTICE

India for the following items for our TCP Screening Plant, (CG) as per details furnished in the Tender documents.

Sl. No.	Item Description	Last Date/Time for submission of offer	Tender Fees in Rs.	EMD in Rs.
23	Dt. 10.05.2018 (PI # 11B188 dt. 28.12.2018)	01.06.2018 03:00 PM	Nil	2,00,000/- (Two Lakh)
24	Dt. 10.05.2018 (PI # 11B181 dt. 19.08.2017)	01.06.2018 03:00 PM	Nil	2,00,000/- (Two Lakh)

Our website <http://www.nmdc.co.in> under e-procurement procure.gov.in; and MSTC portal <http://www.mstcecom.com>

AD THE TENDER DOCUMENTS AND SUBMIT THE WITHIN THE DUE DATE AS MENTIONED ABOVE.
Bancue extension shall be issued on the above said websites should visit the above websites from time to time to note
Jt. General Manager (Materials)

TECHNOLOGY LTD. SELAN
Website: www.seloil.com
Garpur, Najafgarh, New Delhi-110 043
conn; Telefax No. : 0124-4200326
for the Year ended March 31, 2018

Quarter ended or Mar 31, 2018	Year ended Mar 31, 2018		
	Quarter Ended Mar 31, 2017 (Audited)	Year Ended Mar 31, 2018 (Audited)	Year Ended Mar 31, 2017 (Audited)
ma	1456	7661	5584
bef	85	2205	883
ent	85	2205	883
act	82	2208	869
any	1640	1640	1640
		27800	26579

Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. on the stock exchange website: www.nseindia.com and www.seloil.com.

for SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LTD.
R. KAPUR
DIN:00017172
Chairman

NIGAMA LIMITED
Mataka Enterprise)
0003SGC032044
Gokulam, Manjunathapur, Mysuru - 570 020.
ntre Building, Anandarao Circle, Bengaluru- 560 009.
Year Ended on 31st March 2018
(Rs. in lakh)